

FAQs on CHO, NHM UP Offer Letter, Joining and Other Formalities

सी.एच.ओ, एनएचएम, यूपी ऑफर लेटर, जॉइनिंग तथा अन्य औपचारिकताओं पर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सी.एच.ओ, एनएचएम, यूपी के जनवरी 2020-सत्र (बैच अप्रैल 2020-सितम्बर 2020) का ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करें?

- अभ्यर्थी अपना ऑफर लेटर www.sams.co.in या www.upnrhm.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं;
- अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन या रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं;
- ऑफर लेटर को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित किया गया है, अभ्यर्थी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके अपना ऑफर लेटर देख सकते हैं।

2. ज्वाइनिंग के लिये आवश्यक दस्तावेज:

अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग के समय निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:

- (क) ऑफर लेटर का प्रिंटेड कॉपी;
- (ख) एडमिट कार्ड की छायाप्रति जो 16 जून 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा में जारी की गई थी;
- (ग) स्युरटी बॉन्ड (Surety Bond) निर्धारित प्रारूप के अनुसार 100 रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर; तथा
- (घ) ऑफर लेटर एवं स्युरटी बॉन्ड में सभी उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज।

नोट: अभ्यर्थी अपना ऑफर लेटर, एडमिट कार्ड तथा स्युरटी बॉन्ड www.sams.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

3. ज्वाइनिंग की औपचारिकता कहाँ पर पूरी की जाएगी/ अभ्यर्थी अपना ज्वाइनिंग कहाँ पर देगा?

- अभ्यर्थी का चयन जिस जिले में हुआ है, वह सर्वप्रथम उस जिले के CMO कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करेंगे;
- CMO कार्यालय में जॉइनिंग देने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2020 है;
- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है वह CMO कार्यालय पर 15 मार्च 2020 से पहले ही अपना जॉइनिंग औपचारिकता को पूर्ण कर लें तथा उसके उपरांत 16-25 मार्च तक प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर ट्रेनिंग से सम्बंधित सभी औपचारिकता पूरी करें।

4. प्रोग्राम स्टडी सेंटर:

- CMO कार्यालय में जॉइनिंग की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद अभ्यर्थी अपने आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे;
- प्रोग्राम स्टडी सेंटर का विवरण अभ्यर्थी के ऑफर लेटर पर उल्लिखित है;
- प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर 16 मार्च से 25 मार्च 2020 रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

5. प्रशिक्षण सत्र कबसे शुरू होगा?

- सी.एच.ओ का प्रशिक्षण सत्र 1 अप्रैल, 2020 से आरम्भ होना प्रस्तावित है।

6. ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि:

- CMO कार्यालय में जॉइनिंग देने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2020 है;
- प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर 25 मार्च 2020 तक या उससे पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

7. शेष शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर कब दिया जायेगा?

- भारत सरकार द्वारा 6 नए आरएचएफडब्ल्यूटीसी (RHFWTC) के अनुमोदन के उपरान्त मेरिट के आधार पर अगले 240 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर जारी किया जा सकता है।
- जनवरी 2020 सत्र (बैच: अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020) की भर्ती प्रक्रिया के बाद, यदि कोई स्थान जोइनिंग के लिए खाली रहता है तो उस स्थान के लिए शेष शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में से मेरिट के अनुसार ऑफर लेटर दिया जा सकता है।
- यदि दिए गए स्थानों की सभी रिक्तियों, जनवरी 2020 सत्र (बैच: अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020) में भर दिया जाता है इस स्थिति में, शेष शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को, भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त, CHO के अगले सत्र में समायोजित किया जा सकता है।